

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी फूड ट्रक फेस्टिवल के साथ इमेंसिपेशन डे का जशन मना रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (23 जुलाई, 2021) – 1 अगस्त को, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन आपको इमेंसिपेशन डे (Emancipation Day) का जशन मनाने के लिए आमंत्रित कर रही है। इस दिन को, पूरी दुनिया में अफ्रीकी वंश के लोगों की गुलामी के अंत के यादगार दिन के तौर पर मान्यता दी गई है। यह कार्यक्रम, सुबह 10 बजे केन विलियन्स सक्वेयर (Ken Whillans Square) पर व्यक्तिगत तौर पर झंडा फहराने के साथ शुरू होगा, उसके बाद दोपहर से रात 8 बजे, तक, इमेंसिपेशन पार्क, 7599 डिक्सी रोड (Emancipation Park, 7599 Dixie Road) में संगीत और मनोरंजन सहित, फूड ट्रक फेस्टिवल होगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की [आर्थिक सशक्तिकरण और एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई \(Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit\)](#), *पासिंग द टॉर्च अवॉर्ड्स (Passing the Torch Awards)* पेश करेगी। यह एक नया मान्यता प्रोग्राम है, जो ब्लैक युवाओं और ज्ञान देने और सफलता का मार्ग दिखाने वाले लोगों को साथ लाता है। ओनटैरियो की लेजिस्लेटिव असेंबली (Legislative Assembly) के लिए चुनी गई पहली ब्लैक महिला, ज़नैना अकांडे (Zanana Akande) मुख्य स्पीकर होंगी और वे झंडा फहराने की रस्म के बाद केन विलियन्स में अवॉर्ड्स प्रोग्राम पेश करेंगी।

झंडा फहराने की रस्म में शामिल होने या फूड ट्रक फेस्टिवल के लिए अपनी टेबल बुक करने हेतु, brampton.ca/events पर जाएं।

सिटी ने पहली बार 2020 में, डिक्सी 407 स्पोर्ट्स पार्क (Dixie 407 Sports Park) का नाम बदलकर इमेंसिपेशन पार्क रखते हुए इमेंसिपेशन डे को मान्यता दी थी। इस पार्क में छोटी और बड़ी सॉकर पिचें और क्रिकेट ग्राउंड हैं। इस वर्ष हम प्रत्येक व्यक्ति को कैरेबियन विरासत और आजादी, ब्रैम्पटन की ब्लैक कम्युनिटी के योगदान को मान्यता देने और कला, संस्कृति, भोजन और कम्युनिटी के दिन के साथ हमारे विविध मोजैक का जशन मनाने के लिए आमंत्रित करते हैं।

हवाले

“ब्रैम्पटन की विविध पृष्ठभूमि ही इस शहर को बेजोड़ और सुंदर मोजैक बनाती है, जिसका हम जशन मनाते हैं और इसकी कदर करते हैं। पिछले वर्ष, सिटी काउंसिल ने ग्लोबल मान्यता में शामिल होने और अतीत को यादगार बनाने के लिए, ब्रैम्पटन में 1 अगस्त को इमेंसिपेशन डे के तौर पर मनाने की घोषणा की थी और सिटी के डिक्सी 407 स्पोर्ट्स पार्क का नाम बदलकर इमेंसिपेशन पार्क रखा था, क्योंकि हम सभी, पूरे ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए निष्पक्ष और बराबरी वाले भविष्य की ओर बढ़ने पर काम कर रहे हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“पिछले वर्ष सिटी की एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई ने हमारे मौजूदा वातावरण और वृद्धि तथा हिमायत के अवसरों के बारे में अर्थपूर्ण विचारविमर्श करने हेतु, ब्रैम्पटन की ब्लैक कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए बिना थके काम किया है। इमेंसिपेशन डे हमारे लिए ब्रैम्पटन की ब्लैक विरासत और संस्कृति का जशन मनाने और उस बातचीत को जारी रखने के लिए, संपूर्ण कम्युनिटी के साथ जुड़ने का एक तरीका है।”

- *शारमैन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, कार्यस्थल और हमारी कम्युनिटी दोनों में, विविधता, बराबरी और भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी एंटी-ब्लैक जातिवाद इकाई ने खुद को कम्युनिटी में स्थापित किया है और यह, ब्रैम्पटन में बदलाव लाने के प्रति काम करने में क्रियाशील साझेदार बन चुकी है। इस तरह के कार्यक्रमों से हम ब्रैम्पटन की ब्लैक संस्कृति और कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं और इसका जशन मना सकते हैं।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), सी.ए.ओ., सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया में अगली पीढ़ियों को, इमेंसिपेशन के काम के साथ जोड़ा जाए और इसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। 1 अगस्त को, हम उन लोगों को सम्मानित करने को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया और भविष्य के लीडर्स को प्रेरित करने के लिए हम उनकी विरासत का इस्तेमाल करते हैं। पीढ़ियों के बीच भेद समाप्त करने के लिए यह इकाई, पासिंग द टॉर्च अवॉर्ड्स पेश कर रही है। ये अवॉर्ड्स उन ब्लैक सफल युवाओं को सम्मानित करेंगे, जो कम्युनिटी में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।”

- *गविनेथ चैपमैन (Gwyneth Chapman), सीनियर एडवाइजर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड एंटी-ब्लैक रेसिज़्म, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca